Nupur Recyclers Limited

(Formerly known as Nupur Recyclers Private Limited) CIN - L37100DL2019PLC344788

Date: 13.08.2025

To

The Manager- Listing Compliance National Stock Exchange India Limited Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla complex, Bandra (E), Mumbai 400051.

Subject: Compliance under Regulations 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) 2015

NSE Symbol: NRL; ISIN: INE0JM501013

Dear Sir/Madam

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are sending herewith public notice issued to the shareholders of the company published today in the newspapers viz – Financial Express and Jansatta Newspaper inter alia informing about the unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the quarter ended June 30, 2025.

The aforementioned documents shall also be available on the Company's Website www.nupurrecyclers.com.

You are requested to kindly take the above information on your records.

Yours faithfully

FOR NUPUR RECYCLERS LIMITED

SHILPA VERMA
Company Secretary & Compliance officer
M. No - F10105



Date and Amount

FINANCIAL EXPRESS



Borrower(s) /

Public Notice For E-Auction Cum Sale (Appendix - IV A) (Rule 8(6))

Sale of Immovable property mortgaged to IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL-HFL) Corporate Office at Plot No.98, Udyog Vihar, Phase-IV, Gurgaon-122015. (Haryana) and Branch Office at:- "30/30E, Upper Ground Floor, Shivaji Marg, New Delhi - 110015 "under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter "Act") Whereas the Auhorized Officer ("AO") of IIFL-HFL had taken the possession of the following property/ies pursuant to the notice issued U/S 13(2 of the Act in the following loan accounts/prospect nos. with a right to sell the same on "AS IS WHERE IS BASIS, AS IS WHAT IS BASIS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" for realization of IIFL-HFL's dues, The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website: www.iiflonehome.com Borrower(s) / Co- Demand Notice

Date of Physical

Possession

Reserve Price

Description of the Immovable

property/ Secured Asset

ļ	Date of Inspection of property 28-Aug-2025 1100 hrs -1400 hrs. Mode of Payment :- EMD payments are to be made vide online mode			EMD Last Date 01-Sep-2025 till 5 pm.	Date/ Time of E-Auction 03-Sep-2025 1100 hrs-1300 hrs.		
	Sapna Bhatt (Prospect No IL10274282)	Rs.25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand Only)	Area: 540.00.		Fifty Six Thousand Eight Hundred and Ninety Four Only)	Rs. 1,34,300/- (Rupees One Lakh Thirty Four Thousand Three Hundred Only)	
	1. Mr. Anurag Notiyal, 2.Mrs. Bimla Devi Nautiyal, 3.Mrs.	Forty Two Thousand	bearing Pvt No. 53 Situated within Exter Burari, Delhi, 11008	ithout Terrace/Roof Right, Plot BA, Out of Khasra No. 503, ided Lal Dora, Abadi of Village 4. Area Admeasuring (In Sq. Area_Admeasuring Property	Total Outstanding as On Date 06-Aug-2025 Rs. 26,56,894/-	(Rupees Thirteen Lakh Forty Three Thousand Only) Earnest Money Deposit (EMD)	
L	Guarantor(s)	00-00p-2024		tel of the property bearing Built	.0.00 2020	Rs.13,43,000/-	

through link available for the property/ Secured Asset only. Note: Payment link for each property/ Secured Asset is different. Ensure you are using link of the property/ Secured Asset you intend to buy vide public auction.For Balance Payment - Login https://www.iiflonehome.com >My Bid >Pay Balance Amount.

TERMS AND CONDITIONS:-For participating in e-auction, Intending bidders required to register their details with the Service Provider https://www. iiflonehome.com well i advance and has to create the login account, login ID and password. Intending bidders have to submit / send their "Tender FORM" along with the pay-

ment details towards EMD, copy of the KYC and PAN card at the above mentioned Branch Office. The bidders shall improve their offer in multiple of amount mentioned under the column "Bid Increase Amount". In case bid is placed in the last 5 min utes of the closing time of the auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes. The successful bidder should deposit 25% of the bid amount (after adjusting EMD) within 24 hours of the acceptance of bid price by the AO and the balance 75% of the bid amount within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. All deposit and payment shall be

in the prescribed mode of payment The purchaser has to bear the cess, applicable stamp duty, fees, and any other statutory dues or other dues like municipal tax, electricity charges, land and all other incidental costs, charges including all taxes and rates outgoings relating to the property

The purchaser has to pay TDS application to the transaction/payment of sale amount and submit the TDS certificate with IIFL HFL. Bidders are advised to go through the website https://www.iiflonehome.com and https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction for

For details, help procedure and online training on e-auction prospective bidders may contact the service provider E mail ID:-care@iiflone home.com, Support Helpline Numbers:@1800 2672 499. For any query related to Property details, Inspection of Property and Online bid etc. call IIFL HFL toll free no. 1800 2672 499 from 09:30 hrs

detailed terms and conditions of auction sale & auction application form before submitting their Bids for taking part in the e-auction sale

to 18:00 hrs between Monday to Friday or write to email:- care@iiflonehome.com Notice is hereby given to above said borrowers to collect the household articles, which were lying in the secured asset at the time of taking physica possession within 7 days, otherwise IIFL-HFL shall not be responsible for any loss of property under the circumstances. 10. Further the notice is hereby given to the Borrower/s, that in case they fail to collect the above said articles same shall be sold in accordance with Law 1. In case of default in payment at any stage by the successful bidder / auction purchaser within the above stipulated time, the sale will be cancelled and

the amount already paid will be forfeited (including EMD) and the property will be again put to sale. 12.AO reserves the rights to postpone/cancel or vary the terms and condition of tender/auction without assigning any reason thereof. In case of any dispute in tender/Auction, the decision of AO of IIFL-HFL will be final.

15 DAYS SALE NOTICE UNDER THE RULE 9 SUB RULE (1) OF SARFAESI ACT, 2002 The Borrower are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto dated interest and ancillary expenses before the date of

Tender/Auction, failing which the property will be auctioned/sold and balance dues if any will be recovered with interest and cost. Place:- Delhi, Date: 13-08-2025 Sd/- Authorised Officer, IIFL Home Finance Limited.

NUPUR RECYCLERS LIMITED

"Regd. Office: Plot No. 5, KH 12/8, 12/9, KH-12, Arjun Gali New Mandoli Industrial Area, Delhi - 110093 CIN: L37100DL2019PLC344788 Website: www.nupurrecyclers.com, Email: compliance@nupurrecyclers.com, Tel: +91-8882704751

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025 (Amount in Rs. Lacs)

SI.			Quarter Ended		tear Ended
No.	Particulars	30.06.2025 (unaudited)	31.03.2025 (audited)	30.06.2024 (unaudited)	31.03.2025 (audited)
1	Total Income from Operations	5,303.29	3,913.06	3,797.89	16,769,45
2	Profit before exceptional items and tax	539.96	303.32	648.35	2,152.14
3	Profit before tax	539.96	303.32	648.35	2,152.14
4	Profit after tax	404.45	230.55	505.92	1,627.04
5	Total Comprehensive Income for the year/period	702.51	(156.72)	783.83	1,468.41
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs.10 each)	6,863.90	6,863.90	6,863.90	6,863.90
7	Other equity	NA.	NA	NA.	4,906.88
8	Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each)	- Control		V-00-0	154 VV 4
100	Basic (in Rs.) (not annualised)	0.52	0.30	0.65	2.11
1 10	Diluted (in Rs.) (not annualised)	0.52	0.30	0.65	2.11

Place: New Delhi

Date: 12.08.2025

Dated: 12.08.2025

Notes

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange (NSE) and on the Company's website www.nupurrecyclers.com Standalone information (Amount in Rs. Lacs)

Year Ended Quarter Ended 30.06.2025 31.03.2025 30.06.2024 31.03.2025 **Particulars** (unaudited) (audited) (unaudited) (audited) Total Income from Operations 2,883.69 3,059.61 3,621.37 14,001.10 402.63 Profit before exceptional items and tax 149.91 95.25 977.69 402.63 149.91 95.25 977.69 3 Profit before tax 4 Profit after tax 110.60 69.20 299.25 702.16 Total Comprehensive Income for the year/period 408.66 (318.07)577.16 543.53 Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs.10 each) 6,863.90 6,863.90 6.863.90 6.863.90 Other equity NA NA NA. 4,088.28 8 Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each) 0.16 0.44 Basic (in Rs.) (not annualised) 0.10 1.02 Diluted (in Rs.) (not annualised) 0.16 0.10 0.44 1.02


These financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principal in Ind AS 34 - Interim Financial Reporting, prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 read with the relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India. Figures for the previous periods have been re-grouped/ rearranged/ restated wherever necessary to make them comparable with those

of the current period.



Rajesh Gupta Managing Director DIN - 01941985

For NUPUR RECYCLERS LIMITED





Bank of Baroda Model Town Rewari

POSSESSION NOTICE (For Immovable property/ies) (As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of the Bank of Baroda under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 24.04.2025, calling upon the Borrower M/s Subhash Chand Dairy through its proprietor Mr. Subhash Chand S/o Sh. Babu Ram Gupta (Proprietor & Guarantor) having registered address #68, Ward No. 8, Palwal Road Sohna, Gurugram-123401, Mr. Subhash Chand s/o Sh. Babu Ram Gupta (Proprietor) R/o Ward No. 5, Opp. Shani Dev Mandir New Friends Colony, Palwal Road Sohna, District Gurugram, Haryana-1221031, Mr. Deep Chand S/o Sh. Babu Ram Gupta (Guarantor) R/o Ward No. 5, Opp. Shani Dev Mandir, New Friends Colony, Palwal Road, Sohna, Tehsil Sohna, District Gurugram, Haryana-122103, Mr. Dinesh Kumar S/o Sh. Babu Ram Gupta (Guarantor) R/o Ward No. 5, Opp. Shani Dev Mandir, New Friends Colony, Palwal Road, Sohna, Tehsil Sohna, District Gurugram, Haryana-122103 to repay the amount mentioned in the notice being Rs 2,28,75,561.53/ (Rupees Two Crore Twenty-Eight Lakhs Seventy-Five Thousand Five Hundred Sixty-One and Fifty-Three Paisa only) as on 31.03.2025 together with further interest thereon at the contractual rate plus costs charges and expenses till date of payment within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and the Public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002 on this the 12th day of august of the year 2025.

The Borrower/Guarantors/Mortgagors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property/ies will be subject to the charge of Bank of Baroda for an amount of Rs 2,28,75,561.53/-(Rupees Two Crore Twenty-Eight Lakhs Seventy-Five Thousand Five Hundred Sixty-One and Fifty-Three Paisa only) as on 31.03.2025 plus further unapplied interest at the contractual rate plus cost, and other charges and expenses w.e.f. 31.03.2025 and further interest thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses till date of payment. The Borrower's attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time

available, to redeem the secured assets.

Description of the Immovable Property

Property1.Equitable Mortgage dated 09.01.2018 of Property/Shop admeasuring 61.33 Sq. Yard within Abadi of Ward No. 4, within MC Sohna, District Gurugram in the name of Mr. Dinesh Kumar, Mr. Subhash Chand & Mr. Deep Chand registered as document no. 1380, Book No. 1 dated 04.12.1991 in the office of Sub-Registrar Sohna. Property2. Equitable Mortgage dated 09.01.2018 of Property/Shop admeasuring 20.44 Sq. Yard within Abadi of Ward No. 4, within MC Sohna, District Gurugram in the name of Mr. Dinesh Kumar, Mr. Subhash Chand & Mr. Deep Chand registered as document no. 1379, Book No. 1 dated 04.12.1991 in the office of Sub-Registrar Sohna. Boundaries of the property: North: Shop of others, South: Shop of Karun Traders, East: Plot of others, West: Delhi-Alwar Road, CERSAI I'd of Secured asset is 400018377495. Property3. Equitable Mortgage of plot admeasuring 13 Marla out of ward no 07, Palwal Sohna Road, Khewat/Khata No. 745/1041, Rect No 247, Killa No 11(3-15), Village-Sohna in the Name of Mr. Dinesh Kumar, Mr. Subhash Chand & Mr. Deep Chand registered as Doc No. 387, Book No. 1 dated 25.04.2007 & Mutated vide Mutation no. 17368 on 26.09.2008. Mr. Dinesh Kumar has filed an application for issuance of Master Plan of Sohna & zonal plan & status of land in the office of District Town planned Gurugram & DTP issued a letter bearing Memo no. 6080 dated 21.10.2015 informing that as per published plan 2031 AD of Sohna, Distt. Gurugram, Rect. No. 247, Killa No. 15 is part of residential Sec 7 & as shown an existing Abadi of Sohna Town situated within revenue estate of Sohna, Tehsil Sohna, District Gurugram Boundaries of the property: North: Sohna Palwal Road, South: Others property, East: Shop of others, West Shop of others, CERSAI I'd of Secured asset is 400018414683. Property4. Equitable Mortgage Dated 09.01.2018 of Property/ Plot admeasuring 11 Marla bearing no. 1208/15 out of Ward No. 4, Palwal-Sohna Road, Khewat/Khata No. 162, Mutation No. 24, Killa No. 24, Killa No. 15/2/1(4-6), Village-Sohna in the Name of Mr. Dinesh Kumar, Mr. Shubhash Chand & Mr. Deep Chand registered as document No. 5799, Book No. 1 dated 18.11.2011 & Mutated vide Mutation No. 21078 on 25.05.2015. Mr. Dinesh Kumar has filed an application for issuance of Master Plan of Sohna & Zonal plan & status of land in the office of District Town planned Gurugram & DTP issued a letter bearing Memo No. 6080 dated 21.10.2015 informing that as per published plan 2031 AD of Sohna, Distt. Gurugram, Rect. No. 247, Killa No. 15 is part of residential Sec 7 & as shown an existing Abadi of Sohna Town situated within revenue estate of Sohna, Tehsil Sohna, District Gurugram. Boundaries of the property: North: House of others, South: Sohna Palwal Road, East: Shop of Sh. Basant, West: Shop of others (Mr. Amit Goel) CERSAII'd of Secured Asset is 400018416949 Chief Manager/Authorised Officer,

Place: Rewari

SMFG India Home Finance Co. Ltd. SMFG Grihashakti Corporate Off.: 503 & 504, 5th Floor, G-Block, Insipre BKC, BKC Main Road, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051

Read. Off.: Commerzone IT Park, Tower B, 1st Floor, No. 111, Mount Poonamallee Road, Porur, Chennai – 600116, TN

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-AUCTION SALE NOTICE OF 15 DAYS FOR SALE OF IMMOVABLE ASSETS UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 READ WITH PROVISION TO RULE 9(1) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002.

Notice is hereby given to the Public in General and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below listed immovable properties ("Secured Assets") mortgaged / charged to the Secured Creditor, the Possession of which has been taken by the Authorised Officer of SMFG India Home Finance Co. Ltd. (hereinafter referred to as SMHFC) ("Secured Creditor"), will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" on the date and time mentioned herein below, for recovery of the dues mentioned herein below and further interest and other expenses thereon till date of realization, due to SMHFC Secured Creditor from the Borrower(s) and Guarantor(s) mentioned herein below.

SI. No.	Name of the Borrower(s) / Guarantor(s) LAN			Date & Time of E-Auction	Date of EMD Submission
1.	Lan No. 605439211146557 1. Vineet, S/o.	Flat No S-7 (Back Side) 3rd Floor (Lhs) Buiilt On Plot No Mm- 132 Land Area Measuring 336.24 Sq.mtrs., Situated At Dlf Ankur Vihar Hadbas Village Loni Pargana & Tehsil Loni Distt.	Rs. 14,80,000/-	30.08.2025 at 11.00	29.08.2025
	Chandraboss Tyagi 2. Mona 3. Nitin Tyagi	Ghaziabad. Bounded As Under:- North - Road 18 Mtrs Wide, South - Plot No. D-5/4&5, East - Plot No M.m.131, East - Plot No M.m-133 Flat	Rs. 1,48,000/-	AM to 01.00 PM	29.08.2025
2.	Lan No. 609108810511376 1. Dinesh Kumar	Built Up Flat Baring No. FF01 On First Floor Without Roof Rights Said Floor Built O Property No F-106 Area Measuring 190 Sq Yds., In Block F Situated In The Residential Colony SIf	Rs. 15,60,000/-	30.08.2025 at 11.00 AM to	29.08.2025
	Sharma 2. Shashi Prabha	Vaid Vihar In The Area Of Village Sadullabad and Loni Pargan Loni Tehsil Loni Distt. Ghaziabad	Rs. 1,56,000/-	01.00 PM	
3.	Lan No. 605438011212383 1. Kanchan Ravi	Flat No Gf-05 Built On Plot No 103 Block-B Land Area Measuring 274.156 Sq.yds., Situated In Slf Ved Vihar, Delhi	Rs. 14,20,000/-	30.08.2025 at 11.00	29.08.2025
0.	Kumar 2. Ravi Kumar, S/o. Mange Ram	Bagpat Road Loni In The Revenu Estate Of Village Sadullabac & Loni Tehsil & Distt. Ghaziabad		AM to 01.00 PM	29.00.2023

the following link website address (https://BidDeal.in and https://www.grihashakti.com/pdf/E-Auction.pdf) The Intending Bidders can also contact: Ashish Kaushal, on his Mob. No. 8527134222, E-mail: Ashish Kaushal@ grihashakti.com, Naveen Kumar Tomar, on his Mob. No. 7042853583, E-mail: Naveen.Tomar@grihashakti.com, and Mr. Niloy Dey, on his Mob. 9920697801, E-mail: Niloy.Dey@grihashakti.com

Place: Ghaziabad, Delhi **Authorized Officer.** Date: 12.08.2025 SMFG INDIA HOME FINANCE CO. LTD.

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

Branch Office: ICICI Bank Limited Plot No-23, Shal Tower, 3rd Floor, OICICI Bank | Branch Office: ICICI Bank Limited Flot No-23, 3161 The Authorised ICICI Bank Officer under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and

Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued Demand Notices to the borrower(s) mentioned below, to repay the amount mentioned in the Notice within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

Having failed to repay the amount, the Notice is issued to the borrower and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described below, by exercising powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the belowmentioned dates. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property. Any dealings with the property will be subject to charges of ICICI Bank Limited.

Sr. No.	Name of the Borrower(s)/ Loan Account Number	Description of Property/ Date of Symbolic Possession	Date of Demand Notice/ Amount in Demand Notice (Rs)	Name of Branch
1.	Ravindra Pratap Singh/	Flat No. 909, Block D, Diamond Tower, Puspanjali	April 17, 2025	Etawah/
	Roopa Singh/	Heights Situated At Mauza Mau, 100ft. Dayal	Rs.	Agra/
	LBETA00002371118	Bagh Road, Agra- 282005/07-Aug-25	20,57,693,35/-	Mainpuri

else the mortgaged properties will be sold after 30 days from the date of publishing this Notice, as per the provisions under Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002. Date: August 13, 2025 Sincerely Authorised Officer

Place: Etawah & Agra & Mainpuri For ICICI Bank Ltd.



CIN No. L25209DL1971PLC005535 Regd. Office: A-97/2, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi - 110020, INDIA

Tel. No.: +91-11-47385300. Fax: +91-11-47480746 Email: pearl@pearlpet.net, Web: www.pearlpet.net

PEARL POLYMERS LIMITED

Extract of Unaudited Financial Results for the guarter ended June 30, 2025

-	Ø	C	Quarter ended			
SI. No.	Particulars	30.06.2025 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	30.06.2024 (Unaudited)		
1	2	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Total income from operations (net)	937.58	471.98	844.40	2,516.81	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	289.44	(457.86)	129.24	(527.13)	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	289.44	(457.86)	129.24	(527.13)	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	289.44	(442.73)	129.24	(512.00)	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss)					
	for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	289.44	(445.97)	129.24	(515.24)	
6	Equity Share Capital	1,682.68	1,682.68	1,682.68	1,682.68	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited					
	Balance Sheet of the previous year				1,657.36	
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)					
	(for continuing and discontinued operations)					
	1. Basic	1.72	(2.63)	0.77	(3.04)	
	2. Diluted	1.72	(2.63)	0.77	(3.04)	
Note	s:					

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Quarter ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2025 are available on the Stock Exchange websites: www.nseindia.com

Place: New Delhi


Dated: 12th August 2025

www.bseindia.com and on the Company's website: www.pearlpet.net. For PEARL POLYMERS LIMITED



Chairman & Managing Director

Bank of Baroda -REGISTERED A/D-



Dear Sir, Re: Notice for personal hearing before Review Committee Proposed Declaration as Wilful Defaulter under RBI Guidelines

Please refer to the credit facilities availed by you from Bank of Baroda Railways Road, Bahadurgarh Branch, which have since been classified as Non-Performing Asset (NPA) as per extant quideline of RBI. The outstanding dues in your account(s) are yet to be repaid despite repeated follow-ups and reminders.

The Bank had issued a Show Cause Notice on 03.02.2025 Thereafter, under the directions of the Identification Committee on Wilful Defaulters, a further letter was issued on 17.05.2025 and Pursuant to a detailed examination of your account(s), the Identification Committee constituted under the Reserve Bank of India's Master Directions on Wilful Defaulters has concluded, after following the due process, that your conduct falls within the parameters of wilful default, based on the following grounds, interalia On scrutiny of your account/deeds/documents and writings, performed/executed in favour of the Bank, the

following acts of omission and commission have been observed: > A payment of Rs. 172.50 Lakh was made to supplier of fabrics "Harshita Apparels" whose GST number

07ABKPL1220L1ZE is not found on GST portal. It proves that the funds are siphoned off. Stock Audit and Forensic Audit of the Firm reveals that no unit exists at registered address Plot No G-248, Sector D-

1, Tronica City, Loni, Ghaziabad, UP-201102 and G-75, Sector D-1, Tronica City, Loni, Ghaziabad, UP-201102. This shows that the borrowers have disposed off entire assets without information to /approval by the Bank and the credit proceeds were not deposited in the loan accounts.

The above acts of omission/commission fall within the purview of RBI Wilful Defaulters Guidelines under Clause 3(i1 (t) (i) (C) & (D) stated below:-> The borrower has defaulted in meeting its payment/ repayment obligations to the lender and has siphoned off

the funds availed under the credit facility from the lender. The borrower has defaulted in meeting its payment/ repayment obligations to the lender and has disposed of

immovable or movable assets provided for the purpose of securing the credit facility without the approval of the lender. n accordance with the guidelines prescribed by the RBI and the Bank's internal policy, you are hereby afforded an

opportunity for your personal hearing before the Review Committee, which will examine the findings of the Identification Committee.

Details of the Review Committee Meeting: Date of Hearing: 20.08.2025

Time: 3:00 PM

Venue: Bank of Baroda, Regional Office, Sector 13, Hissar, Harvana

Mode: Video Conferencing Kindly confirm your appearance before 18.08.2025 so that necessary arrangement can be made at our end through

following email or letter:-

The General Manager, Stressed Assets Management Vertical Bank of Baroda, Baroda Corporate Center, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East Mumbai-400051. email:-wfd.bcc@bankofbaroda.co.in

You are requested to appear in person 15 minutes prior time, along with your ID proof, relevant documents and explanations, to present your case. If you fail to attend on the scheduled date, the Committee shall proceed to take an appropriate decision based on available records and without any further reference to you and take steps as per RBI guidelines. Yours Faithfully

(Venugopal N) General Manager SAMV BCC, Mumbai





Registered Office: 09, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057 Branch Office: Office No. A-6, Third Floor, Sector-4, Noida-201301

PUBLIC NOTICE (E- AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY) [UNDER RULE 9(1) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002]

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the borrower(s) and guarantor(s) or

NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY MORTGAGED WITH HERO HOUSING FINANCE LIMITED (SECURED CREDITOR) UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST

their legal heirs/ representatives that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorized Officer of Hero Housing Finance Limited (secured creditor), will be sold on 30-August-2025 (E-Auction Date) on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS" basis for recovery of outstanding dues from below mentioned Borrowers, Co- Borrowers or Guarantors. The Reserve Price and the Earnest Money Deposit is mentioned below. The EMD should be made through Demand Draft/RTGS/NEFT for participating in the Public E-Auction along with the Bid Form which shall be submitted to the Authorised Officer of the Hero Housing Finance Ltd On or before 29-August-2025 till 5 PM at Branch Office: Office No. A-6, Third Floor, Sector-4, Noida-201301 Date of Type of Possession Reserve Loan Name of Borrower(s)/

Account	Co- Borrower(s)/	Demand Notice	(Under	Price	
No.	Guarantor(s)/ Legal	Amount as	Constructive/	Earnest	
	Heir(s)/ Legal Rep.	on date	Physical)	Money	
HHFDELHOU190	Gaffar Ahmed/ Shahin	20/05/2024,	Physical	Rs.	
00002276	Khatoon	Rs. 21,83,975.36/-		14,20,000/-	
	Tanasan.	as on 11/08/2025		Rs. 1,42,000/-	

B- 40, Hayat Enclave Kh No 1208, Village- Loni, Pargana and Tehsil Loni, District Ghaziabad, U.p. 201010 (area Admeasuring 62.70 Sq. Mtrs.) Bounded by: North: Plot No. B- 39, East: 30Ft, Wide road, South: Plot No. B-41, West: Plot No. B-8

HHFDELHOU | Om Sharma/Shehnaz Wife of Om 18/04/2024, Physical Rs. 7,50,000/-21000016953 Rs.15,18,490.17/-Sharma Rs.75,000/as on 07/08/2025

Roof Right on Plot No. 215, Out of Khasra No. 78, Area 40 Sq Yrds. I.e 33.44 Sq Mtrs, Flat Consisting of One Drawning/dining Room, One Bedroom, One Kitchen, One Toilet/bathroom and Balcom Situated At Residential Colony Known As Akashvani Colony (Akash Vihar), in The Area of Village sadullabad, Pargana-tehsil Loni And District-ghaziabad, U.P. Bounded By: North: Road 30 Ft. Wide East: Road 25 Ft, Wide, South: Stair Case/vacant Plot, West: Another Flat/vacant Plot HHFNOIHOU22000023035/H Kuldeep Kumar 17/10/2023, Physical Rs. 22,00,000/-

Description of Property: A Residential Flat No. Ff-1, First Floor, Lig, Front Corner Lhs Unit Withou

HFNOIIPL22000023036 Sharma/ Raj Rani Rs.38,14,663.56.15/as on 07/08/2025 Description of Property: "Flat No. Ff 02, H.i.g First Floor Without Roof Rights Left Hand Front Side Consisting of One Drawing/ Dining Room, Three Bedrooms, Two Toilets, One Kitchen & One Balcony, Covered Area Measuring 750 Sq. Ft I.e, 69.67 Sq. Mtrs Built on Plot No. B-94, Slf Ved Vihar Village-Sadullabad, Pargana And Tehsil Loni, District Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201102 Bounder As: North: Flat Entry/ Other Flat, East: Other Flat H.I.G, South: Open To Sky, West: Other's Property

Physical Rs. 12,70,000/-Rs.18,14,386.76/as on 07/08/2025 Description of property: "Flat No. Sf-3, Second Floor, Back Lhs Unit With Roof Rights, Plot No. A 99, Khasra No. 347, Area Measuring 428 Sq. Ft. I.e 39.76 Sq. Mtrs Situated At Rail Vihar, Village Sadullabad, Tehsil Loni, District Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201102 Consisting Of Two Bedrooms

One Drawing Room, One Kitchen, Two Toilet Bathroom & Balcony Bounded By-North: Other's Flat

10/06/2024,

Kuldeep Son of

HHFLAXHOU22000029909

HFDELHOU19000003387

HHFNSPHOU22000030644

HHFGURHOU23000038438

PET

BOTTLES

(Rs. In lakhs)

DIN 00005403

/30 ft wide road, East: Vacant Plot, South: Other's Property, West: Other's Flat* HHFNOIHOU | Manoj Kumar / Priti Daughter of 24/01/2024 Physical Rs. 7,50,000/-22000026456 Rs. 14,79,158.07/-Ram Babu as on 07/08/2025 Description of property: UGF-2, (Upper Ground Floor Lhs Middle Side From North Side, L.I.G.

Without Roof Right) Covered Area 33.44 Sq Mtrs I.e 40 Sq Yards Consisting of One Bedroom, One Drawning/dining Room, One Toilet/bathroom, And One Kitchen Built Up On Plot No. 215 Out of Khasra No. 78 Situated At Akashvani Colony (akash Vihar) Hadbast Village Sadhulabad Pargana oni Tehsil And Dist Ghaziabad U.P. Plot No. 215, Bounded By: North: Road 9 Mtrs Wide, East: Road. 9 Mtrs Wide, South: Plot No. 214, West: Master Plan Road HHFGAZHOU21000015217 // Kapil Kumar Son 17/10/2023, Physical Rs. 7,50,000/-Rs. 15,56,957.84/-

as on 07/08/2025 Description of property: Flat No. Ugf-01 on Upper Ground Floor (north East Corner Flat) (lig) Without Roof Rights Covered Area Measuring 33.44 Sq. Mtrs I.e 40 Sq. Yds Consisting Of One Bedroom, One Drawing/dining Room, One Kitchen, One Toilet/ Bathroom & Balcony Built-on Residential Plot No. 215, Out of Khasra No. 78, Situated At Akashvani Colony (aakash Vihar), In The Area Of Village-sadullabad, Pargana & Tehsil-loni, District-ghaziabad, U.p. With Common Amenities Written in Title Document. Property Bounded By: East: 9 Miters Road, West: Other Flat/ Master Plan Road, North: 9 Meters Road, South: Vacant Land

22/02/2024,

Rs. 23,19,839.39/-

21/08/2024,

Rs. 30,82,624.89

as on 11/08/2025 Description of property: Residential Flat No.ug-4. On Upper Ground Floor, L.h.s., M.i.g (without Roof Right) Consisting Two Bedrooms, One Kitchen And Two Toilets, Built on Plot No. 39 & 40, Covered Area 50 Sq. Yds.41.805 Sq Meters, I. E Out of Khasra No. 76, Situated At Sudama Puri Colony (Krishna Vatika), Village-dundahera, Pargana-loni, Tehsil & Distt.ghaziabad, Uttar Pradesh Bounded By: North: Plot No. B - 100, East: Flat No. Gf - 2 (M.I.G), South: Common Passage And Stairs, West: Flat No. Gf-4(M.I.G)

Akash Son of

Sunil Kumar

Muneesh Kumar/

Nikki Devi

Neelam Sharma/

Rs. 2,20,000/ as on 07/08/2025 Description of property: Built Up Upper Ground Floor, Without Roof Rights, Flat No. 3 (eastern Side, Middle Portion or Rhs Middle) Area Measuring 55 Sq. Yds Tower- D Preamber, Out Of Built Up Property Bearing Plot No. 3-e & 4-e Out of Khasra No- 590 & 631, Village Nawada, Nawada Extension, Block- B-4, Uttam Nagar, New Delhi-110059. Bounded By: North: Rhs Rear Side Unit Other Property, East: Gali, South: Front Rhs Unit/ Road 18 Ft, West: Stair Case And Lift/ Othe

Parveen Sharma Rs. 32,22,654.98/-Rs. 2,45,000/ as on 07/08/2025 Description of property: "Built Up Second Floor (Back Side) Without Roof Rights, Built on Property No. 121-a, With Proportionate Area Measuring 60 Sq. Yds. (i.e. 50.16 Sq. Mtrs) Out of Total Area 150 Sq. Yds. Out of Khasra No. 24/5, Village-Razapur Khurd, Mohan Garden, Block-q, Gali No-6, Uttarr Nagar, New Delhi- 110059. Bounded By: North: Gali 10 Ft, East: Plot No. 122, South: Front Unit / 20 F Wide Road, West: Part of Plot"

Description of property: "All That Property /parcel of Land Being Situated in Pre-unauthorized Colonies In Delhi Awas Adhikar Yojana Cell, Issued By Delhi Development Authority, in Vijay Viha Ph-1, Near Rithala Regn. No. 347, Pvt Flat No.05, Without Roof Rights, Front Portion, Right Side First Floor House No. F-21 And 31, Khasra No. 77/21, Village of Revenue Estate Rithala Gis Id No. o Geo-coordinates File Dda/gis/05112020124353/200574 And Measuring 52,25 Sq. Mtrs Having First Floor, Bounded By: North: Pvt Flat No. 8, East: Other's Property, South: Gall, West: Pvt Flat No. 8

HHFNSPHOU22000028 Kanhaiya Lal/ Pankaj 20/09/2024. Physical Rs. 22,00,000/-264/HHFNSPIPL220000 Kumar Singh, Sheetal Rs.30.18.829.53/ Rs. 2,20,000/as on 07/08/2025 Sd/-Description of property: "Second Floor without roof right, part of property bearing New no. 4/622 **Udit Seth**

Sq. Mtrs. (522) Sq. Fts., out of khasra no-1595/624 min, Situated in the area of Village Chanderwal alias Shahdara, in the abadi of Bhola Nath Nagar, Gali no. 7, main Mani Ram Mandir Road Illaga Shahdara Delhi-110032, along with electricity & water connections/meters and proportionate undivided and indivisible proportionate land rights, together with the right to use/avail commor intrance, overhead water tank, passages, staircase, services and facilities provided in the building and easements attached thereto of the aforesaid property. Bounded by : North- Property of Others ast- Road (Gali No.7), South- Main Road (main Mani Ram Mandir Road), West- Part of said roperty No.4/622 of others" HHFDELHOU19000001 Deepak Gupta/ Richa 25/06/2024, Physical Rs. 13,05,000/

Rs. 20,87,872.54

Rs. 1,30,500/ as on 11/08/2025 Description of property: Built Up First Floor Towards Front Side Right Hand Side, Withou Roof/terrace Rights: Area Measuring 40 Square Yards, (33:44 Sq. Meters), Approx., Out of Built Up Property Bearing Plot No. 12, B-2 Extension, Out of Khasra No. 13/5, Situated In The Area of Village Natiala. Delhi State Colony Known As Sewak Park, Uttam Nagar, New Delhi-110059, Bounded By: North: 20 Ft Wide Road, East: Other's Flat, South: Other's Flat, West: Other's Flat HHFDELHOU19000006 16/07/2024, Amit Kumar Garg/ Physical Rs. 28,00,000/-

122, Land Area Measuring 130 Sq.yds., Out of Khasra No.349 Min, Fitted With Electric & Wate Neters Situated In The Area of Village Mamoorpur, Delhi Alongwith Jaal & Staircase Are Commor From Ground Floor To Upper Stair Abadi Known As G-block, Punjabi Colony, Narela, Delhi-110040 Within The Limits Of Mod & Township Narela, Delhi-110040, Bounded By: East: Property of Smt Shanti Devi, West: Property of Sh. Devinder, North: Arya Samaj Mandir, South: Staircase and Rasta HHFNSPHOU22000023 Pankaj Singh/ 19/11/2024 Physical Rs. 19,85,000/-

Description of property: "Entire First Floor Without Roof Rights of Built-up Property Bearing No. G-

Description of property: "Built Up Second Floor (back Side Lhs Unit) Bearing Private Unit No. 10. Without/Roof Rights Built on Property Bearing No. 44 With Proportionate Area Measuring 50 Sq. Yds (41.81 Sq. Mtrs) Out of Total Area Measuring 200 Square Yards (i.e. 167.22 Square Meters). Out of Khasra No. 64/6/2, Situated In The Area of Village-Hastal, Delhi, Colony Known As Mohan Garden n Block K-1 Extension, Uttam Nagar, New Delhi-110059 With Common Rights To Use On Small Car Parking Space At Stift Floor, Bounded By: North- Front Unit/ Road 19 Ft, East- Vacant Plot, South-Gali 10 Ft, West-Back Rhs Unit/ Other Property

on 30-August-2025 (E-Auction Date) 11:00 AM onwards with limited extension of 10 minutes

The Intending Purchasers / Bidders are required to deposit EMD amount either through RTGS NEFT or by way of Demand Draft/RTGS/NEFT favouring the "HERO HOUSING FINANCE LTD." The EMD amount will be return to the unsuccessful bidders after conclusion of the E-Ferms and Conditions of the E-Auction: 1.E-Auction is being held on "As is where is Basis" & "As is

2.Bid increment amount shall be Rs.15,000/- (Rupees Fifteen Thousand Only). 3.The E-Auction will be conducted through M/s. C-1 India Pvt Ltd through Mr. Dharani Krishna- 9948182222 (Helpline No(s): Support Landline no+91 124 4302020 /2021/2022/2023/2024 | Support Mobile Nos. +917291981124/25/26 and E-mail on support@bankeauctions.com/andhra@c1india.com) at their web portal https://bankeauctions.com. 4. There is no encumbrance on the property which is in the knowledge of Secured Creditors. However, the intending bidders should make their own independent inquires regarding the encumbrances, title of property put on auction and claims/ rights/ dues/ affecting the property, prior to submitting their bids. In this regard, the E-Auction advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute ant commitment or any representation of Hero Housing Finance Limited. 5. The Authorized Officer / Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third-party claims/ rights/ dues. The sale shall be subject to rules/ conditions/ prescribed under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. The other terms and conditions of the E-Auction are published in the following website: www.herohousingfinance.com 6.For property details and visit to property contact to Mr. Ershad Ali ershad.ali@herohfl.com/ 8802270415 8802270415 and Shekhar Singh/9711522275. shekhar.singh@herohfl.com. 7.The prospective bidders can inspect the property on 22-August-2025 between 11.00 A.M to 2.00 P.M with prior appointment.

15 DAYS SALE NOTICE TO THE BORROWER/GUARANTOR/MORTGAGOR

mentioned in Demand Notice under section 13(2) with as on date interest and expenses before the date of Auction failing which the property shall be auctioned and balance dues, if any, will be recovered with interest and cost from you. For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in

Authorised officer

Date: 13/08/2025 Place: Delhi/NCR

New Delhi

21/11/2024, Physical Rs. 24,50,000

Rs. 75,000/-

Physical Rs. 14,00,000/-

Physical Rs. 22,00,000/-

Rs. 1,40,000/

HHFGAZLAP Ramesh Chand Son of Tola Ram/ 16/10/2024, Physical Rs. 14.85,000 22000028739 Parvesh Devi Rs. 19,08,825.22/-

Rs. 1,48,500/ as on 07/08/2025

Old No. 224/C, built on part of plot no-111, having an area measuring 58 Sq. yds. (approx.) or 48.4936

085/ HHFDELIPL19000 Rs. 43,74,090.89/-Sandhna Garg as on 11/08/2025

462/ HHFNSPIPL22000 Rs.30,15,702.10/-Anjali Karki Rs. 1,98,500/-23597 as on 07/08/2025

ferms and condition: The E-auction will take place through portal https://bankeauctions.com

what is Basis" & "whatever there is Basis" & "Without recourse Basis" and will be conducted "online"

The above-mentioned Borrower/Mortgagor/guarantors are hereby noticed to pay the sum as

https://uat.herohomefinance.in/hero_housing/other-notice on Hero Housing Finance Limited Secured Creditor's) website i.e., www.herohousingfinance.com For Hero Housing Finance Ltd.

> Mr. Shekhar Singh, Mob-9711522275 Email: shekhar.singh@herohfl.com

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, द्वितीय तल, सीजीओ

नई दिल्ली-110003 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के मामले में

एक्रोमैटिक माइक्रो फाइनेंस के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय मकान संख्या 92, खलीमहवत, बगुलिया, खटीमा, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड – 262308 है।

सीआईएनः U65990UR2014NPL001284 आम जनता को सुचित किया जाता है कि कंपनी 16 जुलाई 2025 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन में परिवर्तन

की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवे दन करने का प्रस्ताव करती है ताकि कंपनी को अपना पंजीकृत कार्यालय ''उत्तराखंड राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य'' में बदलने में सक्षम बनाया जा सके।' कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह निवेशक शिकायत प्रपत्र एमसीए—21 पोर्टल (्रण्उबंण्हवअण्पद) पर

जमा कर सकता है या अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधार बताते हुए एक हलफनामे के साथ अपनी आपत्तियों को पंजीकत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र को इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, द्वितीय तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 के पते पर आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एच. नं. 92, खलीमहुवत, बगुलिया, खटीमा, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड — 262308 पर भेज सकता है।

> हस्ताक्षरकर्ता /-मनीष अवस्थी निदेशक (ভীआईएन: 10437913)

आवेदक की ओर से

फार्म-ए सार्वजनिक घोषणा

| दिनांकः 16.07.202**5**

स्थानः उत्तराखंड

(ar	and a commence of the state of	या विनियमावली, 2016 के विनियम ६ के अधीन)
		न्टेड के लेनदारों के ध्यानाकर्षण हेतु
		क विवरण
1.	कोपॅरिट ऋणी का नाम	श्रीराम स्किल एंड एजुकेशन लिमिटेड
2	कॉर्पोरेट ऋणी के गठन की तिथि	04/02/2020
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट ऋणी गठित / पंजीकृत है	X 50 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4.	कॉर्पोरेट ऋणी की कॉर्पोरेट आइडेंटिटी संख्या / सीमित देयता पहचान संख्या	CHARLES WO HE STATESTALL OF AWARDS
5.	कॉर्पोरेट ऋणी के पंजीकरण कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई का पता	प्लेस, भीष्म पितामह मार्ग, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत -110003 कॉर्पोरेट कॉर्यालय पताः बी-1204, बारहवीं मंजिल, सिम्नेचर टावर साउथ सिटी -1, एनएच -8, गुडगाँव, हरियाणा - 122001
6	कॉपरिट ऋणी के सम्बन्ध में दिवाला आरम्भ तिथि	08-08-2025
7.	दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया को बंद करने की अनुमानित तारीख	04-02-2026
8,	अंतरिम समाधान पेशेवर का नाम और पंजीकरण क्रमांक	प्रभाकर कुमार. IBBI/IPA-002/IP-N00774/2018-2019/12373
9,	अंतरिम समाधान पेशोवर का पता और ईमेल पता जो समिति के पास पंजीकृत हो	B-5/41, भूतल, विवेकानंद अपार्टमेंट, सेक्टर -8, रोहिणी, उत्तरी पश्चिमी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली – 110085 ईमेल: prabhakar_acs@rediffmail.com
10.	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचा के लिए उपयोग किए जाने वाला पता और ई- मेल	8-5/41, भूतल, विवेकानंद अपार्टमेंट, सेक्टर -8, रोहिणी, उत्तरी पश्चिमी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली - 110085 ईमेल: cirp.ssel@gmail.com
11.	दावों के निवेदन की अंतिम तिथि	25 अगस्त 2025 (माननीय न्यायनिर्णायक प्राधिकारी से आदेश दिनांक 11 अगस्त, 2025 को प्राप्त हुआ, अतः आदेश प्राप्ति की तिथि से 14 दिन की गणना की जाएगी)
12.	धारा 21 के उपधारा (ए) के खंड (बी) केतहत लेनदारों की कक्षाएं, यदि कोई हों अंतरिम संकल्प पेशेवर द्वारा निधीरित	लागू नहीं
13.	दिवालियापन पेशेवरों के नाम एक वर्ग में	लाग् नहीं

लेनदारों के अधिकत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए पहचाने जाते हैं (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम) (क) प्रासंगिक प्रासंगिक प्रपत्र और प्रासंगिक प्रपत्र यहां उपलब्ध हैं (ख) अधिकत प्रतिनिधियों का विवरण यहां https://ibbi.gov.in/en/home/downloads कॉर्म प्राप्त करने के लिए आप उपरोक्त फॉर्म को वेबसाइट www.ibbi.gov.in से उनके डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड कर सकते हैं।

इस प्रकार नोटिस दिया गया है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने 08-08-2025 की श्रीराम रिकल एर एजुकेशन लिमिटेड के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवालियापन प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। श्रीराम स्किल एंड एल्केशन लिमिटेड के क्रेडिटर्स को 25-08-2025 को या उससे पहले अपने दावों का सबत प्रस्तु करने के लिए कहा जाता है. जो एंटी नं 10 में उल्लिखित पत्ते पर अंतरिम समाधान पेशेवर को देना हैं

वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों से दावों का सबत जमा करेंगे। अन्य लेनदारों समेत परिचालन लेनदारों क पोस्ट हारा या इलेक्ट्रॉनिक मध्यमों हारा या व्यक्तिगत रूप से दावों का सब्त जमा कर सकते हैं। एंट्री नं. 12 के समझ सुचीबद्ध एक वर्ग से संबंधित एक वितीय लेनदार, क्लास फार्म सी ए में घरेलू खरीदार, अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए एंट्री नं. 13 के समझ सुचीबद्ध तीन दिवालिया पेशेवरों में से अधिकृत प्रतिनिधि के

अपनी पसंद का संकेत देगा। दावे के झूठे या भ्रामक सबूत जमा करने से जुर्माना आकर्षित होगा।

अंतरिम समाधान पेशेवर का नाम एवं हस्ताक्ष

दिनांकः 12-08-2025 IBBI/IPA-002/IP-N00774/2018-2019/12373 स्थानः दिल्ली



सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कॉर्पोरेंट कार्यालय: प्लॉट नंबर 492, उद्योग विहार, फेज-3 गुरुग्राम हरियाणा-122016 पंजीकृत कार्यालय: 5वीं मंजिल, कुंदन भवन, आजादपुर कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, आजादपुर, नई दिल्ली-110033 मांग सचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्गठन एवं प्रतिभृति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत।

अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (कथित अधिनियम) के तहत सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकत प्राधिकारी हैं। प्रतिभति हित् (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में अधिकृत प्राधिकारी ने निम्नलिखित कर्जदार(रों) ('कथित कर्जदार(रों)') को उन्हें निर्गत सम्बन्धित मांग सूचनाओं जिन्हें नीचे भी दिया गया है, में उल्लिखित राशियों का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए 05.08.2025 को मांग सूचनाएं निर्गत की थीं। उपर्युक्त के सम्बन्ध में, एतद्वारा कथित कर्जदार(रों) को धारा 13(2) के तहत एक बार पुनः इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर मांग सूचना में उल्लिखित राशि, कथित कर्जदार(रों) द्वारा क्रियान्वित अन्य दस्तावेजों/प्रलेखों, यदि कोई हो, के तहत देय नीचे वर्णित तिथि(यों) से भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक कथित सूचनाओं में वर्णित के अनुसार भावी ब्याज सिहत नीचे सुचित राशि तथा का 05.08.2025 तक भूगतान करने के लिए कहते हुए सुचना दी जाती है। ऋण के बकाया पुनर्भुगतान हेतु प्रतिभूति के रूप में कथित कर्जदार(रों) द्वारा सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास क्रमशः निम्नलिखित आस्तियां बंधक रखी गयी हैं।

जमानता(या) के नाम	तथा साश	का विवरण
बिनय पाठक पुत्र पशुपतिनाथ कुमार	मांग सूचना दिनांक: 05.08.2025	फ्लैट संख्या 708, सातवीं मंजिल पर, (क्षेत्रफल 1260 वर्ग फुट), ''मैया मार्वल'', राज नगर
पाटक (कर्जदार) अपराजिता कुमारी (सह-कर्जदार)	राशि रु. 26,06,103/- (रुपये छब्बीस लाख छह हजार एक सौ तीन मात्र) 09.07.2025 तक	एक्सटेंशन, राष्ट्रीय राजमार्ग-58, गाँव-नूर नगर, परगना लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश) में स्थित है। सीमा इस प्रकार है:- पूर्वः एनए, पश्चिमः एनए, उत्तरः एनए, दक्षिणः एनए
सोनू पुत्र नरेश कुमार (कर्जदार) मीनू	मांग सूचना दिनांक: 05.08.2025	गाटा संख्या 217/2, क्षेत्रफल 98.00 वर्ग मीटर, ग्राम/मौजा दुर्गेश नगर बागत रुस्तमखानी, तहसील
(सह-कर्जदार)	राशि रु. 8,16,132.85/- (रुपये आठ लाख सोलह हजार एक सौ बत्तीस और पिचासी पैसे मात्र) 09.07.2025 तक	एवं जिला मुरादाबाद में स्थित सम्पत्ति। सीमा इस प्रकार है:- पूर्वः प्लॉट लक्ष्मी एवं सुधीर कुमार राघव, पश्चिमः प्लॉट रमेश, उत्तरः रास्ता 8 फुट चौड़ा, दक्षिणः मकान गिरीश शंकर गुप्ता।
रवि कुमार पुत्र सतवीर	मांग सूचना दिनांकः 05.08.2025	प्लॉट संख्या 80 पर निर्मित आवासीय मकान, क्षेत्रफल 130.66 वर्ग गज, यानी 109.244 वर्ग
सिंह (कर्जदार) 1. रनिया देवी 2. सत्यवीर सिंह (सह-कर्जदार)	राशि रु. 6,11,195.96/- (रुपये छह लाख ग्यारह हजार एक सौ पंचानवे और छियानबे पैसे मात्र) 09.07.2025 तक	मीटर, खसरा संख्या-291, मौजा मिठथौल तहसील मांट और जिला- मथुरा में स्थित, ऊपर की ओर निम्नानुसार सीमा - पूर्व- पथ 10 फीट चौड़ा, पश्चिम- फतेह सिंह का मकान, उत्तर- मकान होले, दक्षिण- महेंद्र सिंह का मकान।
यदि उक्त कर्जदार उपरोक्त	के रूप में सैटिन हाउसिंग फाइनेंस	लिमिटेड को भुगतान करने में विफल हो जाते हैं, तो

सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त प्रतिभूत संपत्तियों के विरुद्ध पूरी तरह से उक्त कर्जदारों के लागत और परिणाम के जोखिम पर आगे की कार्यवाही करेगा। अधिनियम के तहत उक्त कर्जदारों को सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमित के बिना, बिक्री, पूट्टे या अन्यथ के माध्यम से. उपरोक्त संपत्ति को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के पावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करेगा. वह अधिनियम के तहत

ह. /- अधिकृत प्राधिकार्र स्थान : गुरुग्राम दिनांक : 13.08.2025 सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

नुपुर रिसाइक्लर्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नंबर 5, केएच-12/8, 12/9, केएच-12, अर्जुन गली, न्यू मंडावली औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली - 110093

वेबसाइटः www.nupurrecycters.com ईमेलः compliance@nupurrecyclere.com, फोनः +91-8882704751 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों के विवरण के सार (शक्ति लाख क्ययों में)

*			समाप्त वर्ष		
क . सं.	विवरण	30.06.2025 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2025 (लेखापरीक्षित)	30.06.2024 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2025 (लेखापरीक्षित)
1	परिचालन से कुल आय	5,303.29	3,913.06	3,797.89	16,769.45
2	असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ	539.96	303.32	648.35	2,152.14
3	कर पूर्व लाभ	539.96	303.32	648.35	2,152.14
4	कर के बाद लाम	404.45	230.55	505.92	1,627.04
5	वर्ष/अवधि के लिए कुल व्यापक आय	702.51	(156.72)	783.83	1,468.41
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक 10 रुपये का अंकित मूल्य)	6,863.90	6,863.90	6,863.90	6,863.90
7	अन्य इस्विटी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	4,906.88
8	प्रति शेयर आय (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रत्येक)				100000000000000000000000000000000000000
	मूल (रुपये में) (वार्षिक नहीं)	0.52	0.30	0.65	2.11
	परिसमाप्त (रुपये में) (वार्षिक नहीं)	0.52	0.30	0.65	2.11

उपरोक्त सेबी (भूचीबद्धता दावित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनिवम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टीक एक्सचेंजों में दायर अलेखापरीक्षित वितीय परिणाओं के विशतत प्रारूप का विवरण है। अलेखापरीकित विलीय परिणाओं के पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सपेंज (एनएसई) और कंपनी की वेबसाइट www.nupurrecyclers.com पर उपलब्ध है।

Ф.	1285		समाप्त तिमाही				
क्र. सं.	विवरण	30.06.2025 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2025 (लेखापरीक्षित)	30.06.2024 (अलेखापरीवित)	31.03.2025 (लेखापरीक्षित)		
1	पश्चितन से कुल आय	2,883.69	3,059.61	3,621.37	14,001.10		
2	असाधारण नदीं और कर पूर्व लाभ	149.91	95.25	402.63	977.69		
3	कर पूर्व लाभ	149.91	95.25	402.63	977.69		
4	कर के बाद लाभ	110.60	69.20	299.25	702.16		
5	वर्ष / अवधि के लिए कुल व्यापक आय	408.66	(318.07)	577.16	543.53		
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूजी (प्रत्येक 10 रुपये का अंकित मूल्य)	6,863.90	6,863.90	6,863.90	6,863.90		
7	अन्य इक्विटी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	4,088.28		
8	प्रति शेयर आय (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रत्येक)						
	मूल (रुपये में) (वार्षिक नहीं)	0.16	0.10	0.44	1.02		
	परिसनाप्त (रुपये में) (वार्षिक नहीं)	0.16	0.10	0.44	1.02		

स्थानः नई दिल्ली

दिनाक: 12.08.2025

- 3. ये वितीय परिणाम एएस 34 अंतरिम वितीय रिपोर्टिंग में मान्यता और माप सिद्धांत के अनुसार तैयार किए गए हैं, जो कंपनी अधिनियम 2013 की घारा 133 तहत और जारी प्रासंगिक निथमों और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के सहपठित हैं।
- 4. पिछली अवधियों के आंकड़ों को, जहाँ आवश्यक हो, वर्तमान अवधि के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए पुनर्समूहीकृत / पुनर्यवरिधत / पुन: प्रस्तुत किया



कृते नृपुर रिसाइक्लर्स लिमिटेड हस्ता/-राजेश गुप्ता प्रबंध निदेशक डीआईएन-01941985

This is only an advertisement for information purposes and not an Allotment advice.



Our Company was originally incorporated as 'Tirupati Texknit Limited' on September 29, 1978, as a company limited by shares under the Companies Act, 1956. A certificate of commencement of business was granted to our Company on November 30, 1978, by the Registrar of Companies, Delhi & Haryana ("RoC"). Further pursuant to Section 13 of Companies Act, 2013, and other relevant provisions, name of our Company was changed to T. T. LIMITED and a fresh certificate of incorporation consequent upon change of name dated January 15, 1998 under the Companies Act, 1956, was issued by deputy registrar of companies. Our Company pursuant to a resolution passed in the meeting of Board of Directors on December 16, 2024, have shifted its Registered Office from 879, Master Prithvi Nath Marg, Karol Bagh, New Delhi - 110005 to Poddar House, 2nd Floor, 71/2C, Rama Road, Moti Nagar, New Delhi - 110015 i.e. within the local limits of City w.e.f. from December 16, 2024.

Registered & Corporate Office: Poddar House, 2nd Floor, 71/2C, Rama Road, Moti Nagar, New Delhi - 110015; Tel: +91 11 45060708;

Fax: N.A. E-mail: newdelhi@ttlimited.co.in; Website: www.ttlimited.co.in; Contact Person: Rahul Maurya, Company Secretary and Compliance Officer; Corporate Identification Number: L18101DL1978PLC009241

OUR PROMOTER: MR. RIKHAB CHAND JAIN

FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF T. T. LIMITED ("THE COMPANY")

ISSUE OF UPTO 3,33,30,444 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 1/- EACH (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 12/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 11/- PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING UPTO ₹ 4,000 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF FOUR (4) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY TWENTY SEVEN (27) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON FRIDAY, JULY 4 2025 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS TWELVE (12) TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 135 OF THIS LETTER OF OFFER.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company would like to thank all its shareholders and investors for their response to the Issue, which opened for subscription on July 17, 2025 and closed on July 31, 2025 and the last date for On Market Renunciation of Rights Entitlements was July 25, 2025. Out of the total 2,681 Applications for 3,76,68,965 Rights Equity Shares, 410 Applications for 5,68,566 Rights Equity Shares were rejected due to technical rejections as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications received was 2,239 for 3,71,00,399 Rights Equity Shares, which was 111.31% of the Issue size. In accordance with the Letter of Offer, the Basis of Allotment was finalized on August 5, 2025, by the Company in consultation with BSE Limited ("BSE"), the Designated Stock Exchange, the Lead Manager to the Issue and the Registrar to the Issue. The Rights Issue Committee has at its meeting held on August 05, 2025 approved the allotment of 3,33,30,444 Rights Equity Shares to the successful Applicants, All valid Applications after technical rejections have been considered for allotment. In the Issue, NIL Rights Equity Shares have been kept in abeyance.

The breakup of valid applications received and rejected from the shareholders and the renounces is as under:

00020400000001VAT	Gross Applications			Less: Rejections/ Partial Amount			Valid Applications		
Category	Nos.	Shares	Amount (Rs.)	Nos.	Equity Shares	Amount (Rs.)*	Nos.	Equity Shares	Amount (Rs.)
Eligible Shareholders	2069	2,59,09,799	31,09,17,588	365	100	36	2069	25,909,799	31,09,17,588
Renounces	170	11,190,600	13,42,87,200	- ž			170	11,190,600	13,42,87,200
Rejected Bid	410	5,68,566	68,22,792	410	568566	68,22,792			
Total	2649	3,76,68,965	45,20,27,580	410	568566	68,22,792	2239	3,71,00,399	44,52,04,788

*Amount includes for partially rejected cases.

Summary of Allotment in various categories is as under:

Category	No. of Applications	Number of Rights Equity Shares Allotted - against Entitlement (A)	Number of Rights Equity Shares Allotted - against valid additional shares (B)	Total Rights Equity Shares Allotted (A+B)	
Shareholders	2069	92,46,239	1,66,63,560	2,59,09,799	
Renounces	170	65,52,356	8,68,289	74,20,645	
Total	2,239	1,57,98,595	1,75,31,849	3,33,30,444	

Information for Allotment/refund/rejected cases: The dispatch of Allotment Advice cum Refund Intimation to the Allottees, as applicable, has been completed on August 12, 2025. The instructions for unblocking of funds in case of ASBA Applications were issued to SCSBs on August 5, 2025 and August 6, 2025. The listing applications were filed with both the BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") on August 6, 2025. The Company has received the listing approvals from both BSE and NSE on August 11, 2025. The credit of Rights Equity Shares to the respective demat accounts of the allottees in respect of Allotment in dematerialized form will be completed on or about August 12, 2025. For further details, see "Terms of the Issue - Allotment Advice or Refund/Unblocking of ASBA Accounts" on page 155 of the Letter of Offer. The trading in fully paid-up Equity Shares. issued in the Rights Issue shall commence on BSE and NSE upon receipt of trading permission. The trading is expected to commence on or about August 14, 2025. Further, in accordance with SEBI circular bearing reference -SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlements was sent to NSDL & CDSL on August 11, 2025.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Submission of Letter of Offer to SEBI should not in any way be deemed or construed that SEBI has cleared or approved the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the full text of the Disclaimer clause of SEBI as provided in "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of SEBI" on page 129 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of the BSE" on page 130 of the Letter of Offer for the full text of the Disclaimer Clause of BSE.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the "Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of the NSE" on page 130 of the Letter of Offer for the full text of the Disclaimer clause of NSE.

Unless otherwise specified, all capitalised terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer.



Contact Person : Ajay K Laddha

Date : August 12, 2025

Place : New Delhi

Validity of Registration : Permanent

SEBI Registration Number: INM000008753

REGISTRAR TO THE ISSUE

SUMEDHA FISCAL SERVICES LIMITED 6A Geetanjali, 6th Floor, 8B Middleton Street, Kolkata - 700 071. West Bengal, India. Telephone: +91 332 229 8936 / 6813 5900 Facsimile: N.A. Email: tt_rightsissue@sumedhafiscal.com Website: www.sumedhafiscal.com Investor Grievance Email id : mb compliance@sumedhafiscal.com

BEETAL Financial & Computer Services Private Limited Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, New Delhi110062, India Telephone: 91-011-29961281/29961282/42959000 Facsimile: N.A. Email: beetal@beetalfinancial.com / beetalrta@gmail.com Website: www.beetalfinancial.com Investor Grievance Email id : investor@beetalfinancial.com Contact Person: Punit Mittal SEBI Registration No.: INR000000262 Validity of Registration : Permanent

> T. T. LIMITED Rahul Maurya

Company Secretary and Compliance Officer



Registered Office Address: 519, 5th Floor, DLF Prime Towers, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 Corporate Office Address: SATYA Tower, Plot No 7A Sector 125 Noida, Uttar Pradesh- 201301 India Phone No. 011- 49724000, website: www.satyamicrocapital.com

AL ES	(Rupees in million unless otherwise sta						
T	Į į	Quarter ended	Quarter ended	Year ended			
S.No.	Particulars	June 30, 2025	June 30, 2024	March 31, 2025			
		Un-audited	Un-audited	Audited			
1	Total income from operations	2,111.66	3,294.54	13,008.96			
2	Net profit / (loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(3,312.12)	308.23	352.71			
3	Net profit / (loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(3,312.12)	308.23	352.71			
4	Net profit / (loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(2,479.28)	230.08	254.23			
5	Total comprehensive income / (loss) for the period [comprising profit / (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income / loss (after tax)]	(2,489.58)	228.30	189.17			
6	Paid up equity share capital	657.16	656.92	657.16			
7	Instruments entirely equity in nature	2.50	2.50	2.50			
8	Reserves (excluding revaluation reserve)	(28.42)	2,499.25	2,460.44			
9	Securities premium account	7,333.41	7,330.86	7,333.41			
10	Net worth	7,964.65	10,489.53	10,453.51			
11	Paid up debt capital / outstanding debt	40,769.52	44,270.94	44,687.00			
12	Outstanding redeemable preference shares	Nil	Nil	Ni			
13	Debt equity ratio (no. of times)	4.64	4.22	4.27			
14	Earnings per share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic*: 2. Diluted*:	(37.73) (37.73)	3.50 3.47	3.87 3.84			
15	Capital redemption reserve	Nil	Nil	Ni			
16	Debenture redemption reserve	Nil	Nil	Ni			
17	Debt service coverage ratio	NA	NA	N/			
18	Interest service coverage ratio	NA	NA	N.			

Disclosure in compliance with Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 (as amended) for the quarter ended June 30, 2025 are presented in below table:

S.No.	Particulars	Quarter ended June 30, 2025	S.No.	Particulars	Quarter ended June 30, 2025
1	Net profit / (loss) after tax (Rs. in million)	(2,479.28)	9	Inventory turnover	NA
2	Earnings per share: Basic (not annualised)	(37.73)	10	Operating margin (%)	NA
	Diluted (not annualised)	(37.73)		Net profit margin (%)	-117.41%
3	Current ratio (no. of times)	NA	Sector specific equivalent ratios, as applicable:		
4	Long term debt to working capital (no. of times)	NA	12	GNPA (%)	4.76%
5	Bad debts to account receivable ratio	NA	13	NNPA (%)	2.39%
6	Current liability ratio (no. of times)	NA	14	CRAR (%)	15.18%
7	Total debts to total assets	0.81	15	Provision coverage ratio (%)	51.03%
8	Debtors turnover	NA	12		

- The above financial results for guarter ended June 30, 2025 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on August 12, 2025, in accordance with requirement of Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended). The financial results have been prepared in compliance with IND-AS as notified by Ministry of Corporate Affairs and were subjected to limited review by the statutory auditors of the Company. 2 The above is an extract of the detailed format of financial results for the guarter ended June 30, 2025
- filed with the Stock Exchange (BSE Limited) under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results in terms of Regulation 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for the quarter ended June 30, 2025 are also available on the website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com and on the website of the Company at www.satyamicrocapital.com.
- 3 This extract of financial results for the quarter ended June 30, 2025 has been prepared in accordance with the requirement of Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with master circular SEBI/HO/DDHS/DDHS-PoD-1/P/CIR/2024/48 dated May 21, 2024, as amended.

For and on behalf of the Board of Directors of

SATYA MicroCapital Limited Vivek Tiwari

Managing Director and CEO

Place: New Delhi Date: August 12, 2025

DIN: 02174160 V.R. WOODART LIMITED

Corporate Identification Number: L51909MH1989PLC138292 Registered Office: Shop No. 1, Rajul Apartments, 9, Harkness road, Walkeshwar, Mumbai City, Mumbai - 400006, Maharashtra, India; Contact Number: +91 22 4351 4444; Fax Number: +91 22 24936811 Email Address: investors@vrwoodart.com: Website: www.vrwoodart.com

Recommendations of the Committee of Independent Directors ('IDC') of V.R. WOODART LIMITED ("Target Company") in relation to the Open Offer ('Offer') made by Mrs. Minal Patil (Acquirer 1) and Ms. Maddukuri Mounica (Acquirer 2) (hereinafter collectively

Date	Tuesday, August 12, 2025					
Name of the Target Company	V.R. WOODART LIMITED					
Details of the Offer pertaining to the Target Company	Open offer being made by the Acquirers for acquisition of up to 1,06,50,070 Offer Shares, representing 26.00% of the Voting Share Capital of the Target Company, at a price of ₹22.00/- per Offer Share, payable in cash, assuming full acceptance aggregating to a maximum consideration of ₹23,43,01,540.00/- payable in cash. Reference - The Public Announcement dated March 07, 2025 ("PA"), the Detailed Public Statement ("DPS") published on March 13, 2025, the Draft Letter of Offer ("DLO") dated March 21, 2025 and the Letter of Offer ("LO") dated August 05, 2025 issued by Swaraj Shares and Securities Private Limited ("Manager to the Offer") on behalf of the Acquirers.					
Names of the Acquirers and Persons Acting in Concert with the Acquirers	Mrs. Minal Patil (Acquirer 1) along with Ms. Maddukuri Mounica (Acquirer 2). There is no person acting in concert for this Offer.					
Name of the Manager to the offer	Swaraj Shares and Securities Private Limited					
Members of the Committee of	Sr. No.	Name of the Independent Directors	Designation			
Independent Directors (IDC)	1.	Mr. Manan Manoj Shah	Chairperson			
	2.	Mrs. Nidhi Kirti Bhatt	Member			
	3.	Mr. Vinit Arvind Rathod	Member			
	4.	Mr. Kartik Ramesh Jethwa	Member			
IDC Member's relationship with the Target Company (Director, Equity shares owned, any other contract/ relationship), if any Trading in the Equity Shares/other	 All IDC Members are Independent Directors on the Board of the Target Company. None of the members of the IDC hold any equity shares or other securities of the Target Company or have any contract/ relationship with the Target Company other than their appointment as Independent Directors of the Target Company. None of the IDC Members have traded in the Equity Shares of the Target Company from the IDC Members have traded in the Equity Shares of the Target Company from the IDC Members have traded in the Equity Shares of the Target Company from the IDC Members have traded in the Equity Shares of the Target Company from the IDC Members have traded in the Equity Shares of the Target Company from the IDC Members have traded in the Equity Shares of the Target Company from the IDC Members have traded in the Equity Shares of the Target Company from the IDC Members have traded in the Equity Shares of the Target Company from the IDC Members have traded in the Equity Shares of the Target Company from the IDC Members have traded in the Equity Shares of the Target Company from the IDC Members have traded in the Equity Shares of the Target Company from the IDC Members have traded in the Equity Shares of the Target Company from the IDC Members have traded in th					
securities of the Target Company by IDC Members IDC Member's relationship with the	date of the Public Announcement till the date of this Recommendations.					
Acquirers (Director, Equity shares owned, any other contract/ relationship), if any.	None of the IDC Members hold any contract, nor have any direct or indirect relationship with the Acquirers, their Promoter, Directors, and Shareholders, in their personal capacities. Further, since the Acquirers are individuals, Directorship or the details of holding of the Equity Shares/other securities of the Acquirers, is not applicable.					
Trading in the equity shares/other securities of the acquirers by IDC Members	Since the Acquirers are individuals, the details of trading in the Equity Shares/other securities of the Acquirers by IDC Member, is not applicable.					
Recommendation on the Open offer, as to whether the offer, is or is not, fair, and reasonable	of the Acquire are frequently SEBI (SAST) is in line with the Regulations However, the price of the Ec	review of the PA, DPS, DLO and LO issued by the M rs, IDC Members believe that-given the Equity Sh raded in accordance with the provisions of I Regulations, the Offer Price has been determine the parameters prescribed under Regulations 8 (1) a members of the IDC draw attention of the Shareh puity Shares of the Target Company on the BSE Lin 25, being INR 49.82 per Equity Share, which is his	ares of the Target Compar Regulation 2 (1) (j) of the ed in accordance with are and 8 (2) of the SEBI (SAS) olders to the closing mark nited ("BSE") as on Monda			
	Offer vide LO	ders of the Target Company are advised to indep- dated Tuesday, August 05, 2025, including the ris formance of the Equity Shares, and take an informe	sk factors described there			

at www.vrwcodart.com

making the recommendation:

Summary of reasons for the

Disclosure of Voting Pattern

Date: Tuesday, August 12, 2025

Place: Mumbai

Any other matter to be highlighted

recommendation

Lakshadeep (Marathi Daily) (Mumbai Edition); c) Draft Letter of Offer dated Friday, March 21, 2025, filed and submitted with SEBI;

a) Public Announcement dated Friday, March 07, 2025;

d) Letter of Offer along with Form of Acceptance and Form SH-4 dated Tuesday,

interests about tendering the Equity Shares held by them in the Open Offer.

This statement of recommendation will be available on the website of the Target Company

IDC Members have taken into consideration and reviewed the following Offer Documents for

b) Detailed Public Statement dated Wednesday, March 12, 2025, in connection with this

Offer, published on behalf of the Acquirers on Thursday, March 13, 2025, in Financial

Express (English daily) (All Editions), Jansatta (Hindi daily) (All Editions) and Mumbai

The Offer Price is in terms of Regulation 8 (1) and 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations.

Based on the review of the aforesaid Offer Documents, the IDC Members are of the view that

the Offer Price is in line with the parameters prescribed by SEBI in the SEBI (SAST) Regulations. However, the Shareholders of the Target Company are advised to independently evaluate the Open Offer and take an Informed decision in the best of their interests. These recommendations have been unanimously approved by the IDC Members Details of Independent Advisors, if any

None Terms not defined herein carry the meaning prescribed to them in the Letter of Offer dated Tuesday, August 05, 2025.

To the best of our knowledge and belief, after making the proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the Regulations.

For and on behalf of the Committee of Independent Directors

V.R. WOODART LIMITED

Mr. Manan Manoj Shah Chairman of the IDC (DIN:07589737)

epaper.jansatta.com